



MAYUR UNIQUOTERS LIMITED

Manufacturers of Artificial Leather/PVC Vinyl

Ref: MUL/SEC/2018-19/789

Date: 16th August, 2018

To

BSE Limited
Phirozee Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street,
Mumbai- 400 001
Scrip Code: 522249

National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G-
Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai- 400 051
Trading Symbol: MAYURUNIQ

Dear Sir/ Madam

Sub: Standalone Unaudited Financial Results for quarter ended 30th June, 2018 published in Newspapers.

Please find enclosed copy of Standalone unaudited Financial Results for quarter ended 30th June, 2018 as published on 15th August, 2018 in newspapers.

Kindly take above information on records.

Thanking you,

Yours truly,

For Mayur Uniquoters Limited

Rahul Joshi
Company Secretary



Encl: As above


A Texture For Every Idea

Correspondance Address:

28, 4th Floor, Lakshmi Complex, MI Road, Jaipur-302001 (Rajasthan) India • Tel: +91-141-2361132 • Fax: +91-141-2365423

Regd. Office & Works: Village Jaitpura, Jaipur-Sikar Road, Jaipur-303704 (Rajasthan) India • Tel: +91-1423-224001 • Fax: +91-1423-224420

Email: info@mayur.biz • www.mayuruniquoters.com





SUPRAJIT ENGINEERING LIMITED

Regd Office: No 100, Bommasandra Industrial Area, Anekal Taluk, Bengaluru-560 099.
Website - www.suprajit.com, email - info@suprajit.com
CIN - L29199KA1985PLC006934

Statement of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2018. (Rs. In Millions)

Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED			
	For the Quarter ended		Year ended		For the Quarter ended		Year ended	
	30.06.2018	31.03.2018	30.06.2017	31.03.2018	31.06.2018	31.03.2018	30.06.2017	31.03.2018
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1 Total Income from operations	2,360.10	2,581.99	2,346.54	9,879.24	3,617.49	4,063.97	3,454.49	14,546.16
2 Net profit / (Loss) for the period (before tax, exceptional and / or extraordinary items #)	387.08	436.78	330.09	1,589.89	432.58	648.66	356.26	1,934.23
3 Net profit / (Loss) for the period before tax (after exceptional and / or extraordinary items #)	387.08	436.78	330.09	1,589.89	432.58	648.66	356.26	1,934.23
4 Net profit / (Loss) for the period after tax (after tax, exceptional and / or extraordinary items #)	261.27	297.91	219.95	1,046.41	288.07	563.41	226.12	1,384.83
5 Total comprehensive income for the period [Comprising profit / Loss for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	259.53	296.72	221.92	1,041.37	363.69	695.56	253.63	1,508.61
6 Equity share capital (face value of Re.1/- each per share)	139.87	139.87	139.87	139.87	139.87	139.87	139.87	139.87
7 Earning per share (of Re.1 each) (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted	1.87	2.13	1.57	7.48	2.06	4.03	1.62	9.90

Note :

1. The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results are available on the stock exchange web sites, at a link (<http://www.bseindia.com/corporates>) and (<https://nseindia.com/corporates>) and on the company's website at www.suprajit.com.
Consequent to the applicability of Goods and Service tax (GST) with effect from 1st July, 2017, Revenue from operations are required to be disclosed net of GST in accordance with the requirements of Ind AS. Accordingly, the Revenue from operations for the quarter ended 30th June, 2018 are not comparable with the corresponding previous quarter presented in the financials results which are reported inclusive of Excise Duty, comparative revenue of standalone and consolidated unaudited financial results would have been as follows:

Particulars	Standalone For the Quarter ended			Consolidated For the Quarter ended		
	30.06.2018	30.06.2017	Growth	30.06.2018	30.06.2017	Growth
Net Revenue from operations	2,360.10	2,115.51	11.56%	3,617.49	3,218.93	12.38%

Place : Bengaluru
Date : August 14, 2018

For and on behalf of the Board
K. AJITH KUMAR RAI
Chairman & Managing Director
(DIN - 01160327)

Going beyond Commitment,



SUVEN LIFE SCIENCES LIMITED

Regd Off: 8-2-334, SDE Serene Chambers, 6th Floor, Road No. 5, Avenue 7, Banjara Hills, Hyderabad - 500 034, Telangana, India. CIN: L24110TG1989PLC009713
Tel: 91 40 2354 1142 / 3311 / 3315 Fax: 91 40 2354 1152
email: investorservices@suvlen.com website: www.suvlen.com

EXTRACT OF STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE 2018

Sl No.	Particulars	Rs. in Lakhs		
		Quarter ending 30/06/2018 Un-Audited	Year ending 31/03/2018 Audited	Quarter ending 30/06/2017 Un-Audited
1	Total income from operations	19,166.22	62,525.84	14,101.90
2	Net profit / (loss) for the period (Before tax, exceptional and / or extraordinary items)	5,978.27	23,026.57	4,444.78
3	Net profit / (loss) for the period before tax (After exceptional and / or extraordinary items)	5,978.27	23,026.57	4,444.78
4	Net profit / (loss) for the period After tax (After exceptional and / or extraordinary items)	3,884.21	15,842.73	2,957.07
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit / (loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	3,877.29	15,815.05	2,954.63
6	Equity share capital	1,272.82	1,272.82	1,272.82
7	Reserves (Excluding Revaluation Reserve) as shown in the audited balance sheet.		85,397.16	
8	Earnings Per Share (of Rs.1.00/- each) (For continuing and discontinued operations) -			
	1. Basic :	3.05	12.43	2.32
	2. Diluted:	3.05	12.43	2.32
	(not annualised)			(not annualised)

Notes: The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the websites of the stock exchange(s) and the listed entity. (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and company's website www.suvlen.com.

For SUVEN LIFE SCIENCES LTD
VENKAT JASTI
Chairman & CEO
DIN: 00278028

Place : Hyderabad
Date : 14th August, 2018

WE DELIVER.



CARE Ratings Limited

(Formerly known as Credit Analysis and Research Limited)

Regd. Office: 4th Floor, Godrej Coliseum, Somaiya Hospital Road, Off Eastern Express Highway, Sion (East), Mumbai 400022.
Website: www.careratings.com • Email: investor.relations@careratings.com • CIN: L67190MH1993PLC071691

Extract of Statement of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2018

(₹ in Lakhs (except per share data))

Sr. No.	Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED			
		Quarter ended		Year ended		Quarter ended		Year ended	
		June 30, 2018	March 31, 2018	June 30, 2017	March 31, 2018	June 30, 2018	March 31, 2018	June 30, 2017	March 31, 2018
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	6,166.11	10,231.43	6,788.10	34,688.23	6,456.44	10,730.18	6,950.49	35,815.07
2	Net Profit Before Tax	3,216.15	6,487.49	4,490.51	23,175.35	3,191.46	6,698.05	4,427.49	23,307.93
3	Net Profit After Tax	2,554.84	3,992.04	3,548.94	16,102.76	2,515.62	4,201.20	3,485.92	16,233.94
4	Total Comprehensive Income for the period	2,574.91	4,405.40	3,539.16	16,512.84	2,536.05	4,617.33	3,476.14	16,646.80
5	Paid-up equity share capital (Face value : Rs. 10 per share)	2,946.12	2,946.12	2,945.12	2,946.12	2,946.12	2,946.12	2,945.12	2,946.12
6	Other Equity	-	-	-	56,985.54	-	-	-	56,737.23
7	Earnings Per Share (before and after extraordinary items) (of Rs. 10 each)								
	Basic	8.67	13.55	12.05	54.10	8.49	14.27	11.83	54.54
	Diluted	8.67	13.55	12.05	54.10	8.49	14.27	11.83	54.54

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly / Annual Financial Results are available on the Stock Exchange websites. www.bseindia.com and www.nseindia.com. The same is also available on the company's website viz. www.careratings.com under the Investors section.

For and on behalf of the Board of Directors
CARE Ratings Limited
(Formerly known as Credit Analysis and Research Limited)

Rajesh Mokashi
Managing Director & Chief Executive Officer
(DIN: 02781355)

Mumbai, August 13, 2018

MANAKSIA STEELS LIMITED

Corporate Identity Number: L27101WB2001PLC138341
Regd. Office: 8/1 Lal Bazar Street, Bikaner Building, 3rd Floor, Kolkata - 700 001
E-mail: infoms@manaksia.com ; Website: www.manaksia.com
Phone: +91-33-2231 0050 ; Fax: +91-33-2230 0336

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2018

(₹ in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended 30th June 2018	Year Ended 31st March 2018
Total Income from Operations	18710.17	50997.34
Net Profit/(Loss) before taxes	456.40	2227.29
Net Profit/(Loss) after taxes	305.11	1562.03
Total Comprehensive Income [Comprising Profit / (Loss) after tax and Other Comprehensive Income after tax]	305.11	1559.14
Equity Share Capital	655.34	655.34
Earnings per share (of Re 1/- each) (Not annualised):		
(a) Basic (₹)	0.47	2.38
(b) Diluted (₹)	0.47	2.38

Key numbers of Standalone Financial Results: (₹ in Lakhs)

Particulars	Quarter Ended 30th June 2018	Year Ended 31st March 2018	Quarter Ended 30th June 2017
Total Income from Operations	18715.52	50002.49	11913.96
Net Profit/(Loss) before taxes	424.17	2654.68	654.67
Net Profit/(Loss) after taxes	272.88	1665.53	404.99

NOTES :

- The Financial Results of the Company for the Quarter ended 30th June, 2018 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on 14th August, 2018. The Statutory Auditors of the Company have carried out Audit of these results.
- The Consolidated Financial Results comprise of Manaksia Steels Limited, its wholly owned subsidiary, Technomet International FZE incorporated on 3rd August, 2017 and its step-down subsidiaries, Federated Steel Mills Limited and Far East Steel Industries Limited, acquired as on 17th December, 2017. Hence, comparative figures for previous period are not applicable.
- The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange websites, www.nseindia.com and www.bseindia.com and on the Company's website www.manaksia.com
- The financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016. The Company adopted Ind AS from 1st April, 2017, and accordingly, these financial results (Including for all the periods presented in accordance with Ind AS 101 - First-time Adoption of Indian Accounting Standards) have been prepared.

For and on behalf of the Board of Directors
Manaksia Steels Limited

Place : Kolkata
Date : 14th August, 2018

Varun Agrawal
(Managing Director)
DIN : 00441271



SHRI LAKSHMI COTSYN LIMITED

An ISO 9001:2008 Certified Company
CIN: L17122UP1988PLC009985
Regd. Office : 19/X-1, Krishnapuram, G.T. Road, Kanpur-208 007 (U.P.)
Tel. No. : 0512-2401492, 2402893, 2402733, Fax No. : 0512-2402339,
Corp. Office : C-40, Sector-57, Gautam Budh Nagar, Noida- 201 301 (U.P.)
Tel. No. : 0120-4722700, Fax No.: 0120- 4722722
Email : shri@shrilakshmi.in, Website: www.shrilakshmi.in

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30TH JUNE 2018

(Rs. in Crores)

Sl. No.	Particulars	Quarter Ended 30.06.2018 (Unaudited)	Quarter Ended 31.03.2018 (Audited)	Quarter Ended 30.06.2017 (Unaudited)
1	Total Income from Operations	24.46	54.41	64.12
2	Net Profit/(Loss) for the period (before/after tax and before Exceptional items)	(28.72)	(12.83)	(41.47)
3	Net Profit/(Loss) for the period after Tax and after Exceptional items	(28.76)	(26.57)	(41.47)
4	Total Comprehensive Income [comprising profit/(loss) and other comprehensive income after tax]	(28.76)	(26.57)	(41.47)
5	Equity Share Capital (Face value Rs.10/-)	28.47	28.47	28.47
6	Basic/ Diluted Earnings per share (before/after extraordinary items)	(10.10)	(9.33)	(14.57)

Notes:

The above is an extract of the detailed format of quarterly Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations 2015. The full format of UAFR is available on www.bseindia.com; www.nseindia.com and on company's website.

For and on behalf of the Board

Place: Kanpur
Date: 13.08.2018

Dr. M.P. Agarwal
Chairman & Managing Director
DIN:00311806

Mayur Uniquoters Limited

Regd. Office and Works: Jaipur Sikar Road, Village Jaipur, Tehsil-Chormu, Distt. Jaipur-303704 (Raj.) India.
Tel: 91-1423-224001 Fax: 91-1423-224420 CIN: L18101RJ1992PLC006952
Website: www.mayuruniquoters.com Email: secr@mayur.biz

Extracts of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2018

(Rs. in Lakhs, except share and per share data, unless otherwise stated)

Sl. No.	Particular	Quarter Ended		Year ended	
		June 30, 2018 (Unaudited)	March 31, 2018 (Audited)*	June 30, 2017 (Unaudited)	March 31, 2018 (Audited)
1	Total Income from Operations	14,113.40	13,553.91	15,230.51	56,367.42
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items) **	3,952.39	3,449.29	3,844.31	13,980.05
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/ or Extraordinary items)**	3,952.39	3,449.29	3,844.31	13,980.05
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)**	2,559.92	2,415.30	2,568.02	9,409.72
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/ (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	2,561.52	2,418.28	2,568.66	9,418.27
6	Equity Share Capital	2,266.38	2,266.38	2,288.88	2,266.38
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year				43,080.54
8	Earning Per Share (of Rs. 5/- each) (for continuing and discontinued operations)-				
	1. Basic:	5.65	5.30	5.61	20.58
	2. Diluted:	5.65	5.30	5.61	20.58

Note:

- The above is an extract of the detailed format of quarter ended financial results filed with the Stock Exchanges under regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Statutory Auditor has issued modified Limited Review Report on Standalone Unaudited Financial Results for the quarter ended June 30, 2018. The full format of the 1st Quarter Financial Results are available on the websites of the Stock exchanges i.e. www.nseindia.com, www.bseindia.com and the Company's website i.e. www.mayuruniquoters.com.
- This statement has been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with the relevant rules issued thereunder and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.
- Effective April 1, 2018, the Company has adopted Ind AS 115 "Revenue from Contracts with Customers" using the modified retrospective method, wherein the Company has elected to apply practical expedient for contracts that were not completed on or before March 31, 2018. Accordingly, the comparatives have not been retrospectively adjusted. The effect on adoption of Ind AS 115 was insignificant on the financial results and Earning per Share (EPS) for the quarter ended June 30, 2018.
*The figures for the quarter ended March 31, 2018 are balancing figures between the audited figures in respect of the full financial year ended March 31, 2018 and the published unaudited year to date figures upto the nine months ended December 31, 2017.
**The Company does not have any exceptional or extraordinary items to report in the above periods.

For and on behalf of the Board of Directors
Suresh Kumar Poddar
Chairman & Managing Director
DIN-00022395

Place: Jaipur
Date: August 14, 2018



स्टील एल्युमीनियम पर अमेरिकी आयात शुल्क वृद्धि

स्टील मंत्रालय उद्योग के साथ चर्चा द्वारा नया प्रस्ताव अमेरिका को भेजेगा

भारत सरकार द्वारा अमेरिका के उत्पादों पर आयात शुल्क वृद्धि के निर्णय को स्वीकृत किए जाने के पश्चात् अब स्टील मंत्रालय उद्योग जगत के साथ चर्चा के साथ एक व्यापक सहमति पर पहुंचने का प्रयास कर रहा है।



आरोपित करने का प्रयास नहीं करेगा जो कोटा सीमा के अंतर्गत आयात किए जाते हैं।

विश्व व्यापार संगठन के मंच पर अमेरिका को सहमति करने का प्रयास किया था लेकिन असफल रहने पर 20 जून को नोटिफिकेशन जारी करके 29 उत्पादों के आयात पर भारत ने भी शुल्क वृद्धि की घोषणा की थी लेकिन बातचीत के चलते फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है।

विदेशी पर्यटकों की संख्या में 14 प्रतिशत वृद्धि

वर्ष 2017 के दौरान देश में 14 प्रतिशत अधिक विदेशी पर्यटक पर्यटन हेतु आए हैं इसके साथ ही वर्ष 2017 के दौरान पर्यटन से कुल विदेशी मुद्रा आय भी बढ़कर 177874 करोड़ रुपये हो गई है।

सामान्य मानसून व ऋण माफी के कारण फसल बीमा पंजीयन में गिरावट

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का पंजीयन 2017-18 के दौरान वर्ष 2016-17 की तुलना में 15 प्रतिशत कम हो गया है क्योंकि सरकार द्वारा ऋण माफी की घोषणा की गई है तथा किसानों के अच्छे सामान्य मानसून का लाभ भी प्राप्त हुआ है।



प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पंजीयन में गिरावट

Table with 4 columns: राज्य, 2016-17, 2017-18, कमी. Rows include कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र.

किशोर रुपाला ने एक लिखित प्रश्नों के जवाब में कहा कि वर्ष 2018-19 के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 13014.15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।

कावेरी और गोदावरी नदी को जोड़ने की कार्य योजना के क्रियान्वयन से तामिलनाडु की जल समस्या हल होगा

गोदावरी व कावेरी नदी को आपस में जोड़ने की कार्य योजना तैयार कर दी गई है। इससे तामिलनाडु की जल प्रबंधन की समस्या के साथ सिंचाई की समस्या भी हल होगी।

गडकरी ने कहा कि पोलावरम से पानी कृष्णा नदी में ले जाया जाएगा और कृष्णा नदी से पनार नदी में प्रवाहित किया जाएगा तथा अंत में यह पानी कावेरी नदी में पहुंच जाएगा जो तामिलनाडु में स्थित है।

से टोपमसीएफटी पानी को लेकर है। गडकरी के अलावा इस कार्यशाला को कर्नाटक के कृषि मंत्री एनएच शिवा शंकरा रेड्डी तथा तामिलनाडु के मुख्यमंत्री एडुपट्टी के पालानीस्वामी भी उपस्थित थे।

बीमा/बैंकिंग/टेक्सटाइल/हैण्डिक्राफ्ट/ज्वैलरी

300 टेक्सटाइल उत्पादों पर आयात दोगुना होने के साथ बढ़कर 20 प्रतिशत हुआ



धारा 159 के अंतर्गत जारी नोटिफिकेशन में अप्स का आयात जून 2018 में 8.58 प्रतिशत बढ़कर 168.64 मि. डॉलर हो गया है।

यही कारण है कि भारत को विकल्प के रूप में शुल्क वृद्धि का सहारा लेना पड़ा है। भारत में टेक्सटाइल यार्न, फेब्रिक्स व मेड

भारत सरकार ने 328 टेक्सटाइल उत्पादों पर आयात शुल्क में 20 प्रतिशत वृद्धि की है जो पूर्व दर के मुकाबले दुगुना है।

पर शुल्क को बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया था। भारत सरकार को अपेक्षा है कि अधिक शुल्क की दर से उद्योग को महत्वपूर्ण लाभ होगा तथा 10.5 करोड़ श्रमिकों को भी लाभ होने की संभावना है।

सरकार के इस निर्णय से संपूर्ण टेक्सटाइल उद्योग को लाभ होने की संभावना है क्योंकि भारत को वियतनाम, श्रीलंका व बांग्लादेश से कटोर प्रतिस्पर्धा करने पड़ रही है।

मयूर यूनीकोटर्स लिमिटेड

म्युचुअल फंड की संपत्तियों में जुलाई के दौरान केवल एक प्रतिशत वृद्धि

म्युचुअल फंड की संपत्तियों में जुलाई के दौरान केवल एक प्रतिशत वृद्धि संभव हो गई है तथा कुल संपत्तियां बढ़कर 23105 लाख करोड़ रुपये की हो गई हैं जो जून में 22.86 लाख करोड़ रुपये की थी।

SHARMA EAST INDIA HOSPITALS & MEDICAL RESEARCH LIMITED. Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter Ended 30th June, 2018. Table with 5 columns: S.N., Particulars, Quarter ending 30.06.2018, Quarter ending 31.03.2018, Quarter ending 30.06.2017, Year Ended 31.03.2018.

Table with 4 columns: क्र. सं., विवरण, 30 जून 2018, 31 मार्च 2018, 30 जून 2017, 31 मार्च 2018.